स्थानीय टैगोर थियेटर में वरिष्ठ नागरिक दिवस पर आयोजित समारोह & book released titled 'Emerging Contours of Excellence' -01.10.2017

चण्डीगढ 1 अक्तूबर बुजुर्गों के आशीर्वाद और सहयोग के बिना हम कोई भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। भारत को 21वीं शताब्दी की बड़ी शक्ति बनाने में देश के विरष्ठ नागरिकों की शक्ति का योगदान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ये उद्गार हिरयाणा के राज्यपाल प्रो० कप्तान सिंह सोलंकी ने आज स्थानीय टैगोर थियेटर में विरष्ठ नागरिक दिवस पर आयोजित समारोह में बोलते हुए व्यक्त किए। समारोह का आयोजन चण्डीगढ सीनियर सिटीजन्स एसोसिएशन ने किया था।

राज्यपाल ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक न केवल अनुभव का खजाना हैं बल्कि उनमें से ज्यादातर सक्रिय व उर्जावान भी हैं। यही नहीं घर-परिवार की जिम्मदारियां को पूरा करने के बाद उनके पास देश व समाज के लिए कुछ करने के लिए पर्याप्त समय और शक्ति है।

विरष्ठ नागरिकों को विरष्ठ नागरिक दिवस की शुभकामनाएं देते हुए राज्यपाल ने चण्डीगढ सीनियर सिटीजन्स एसोसिएशन द्वारा किए जा रहे समाज सेवा के कार्यों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि मैने विरष्ठ नागरिकों की इतनी सिक्रय संस्था इससे पहले नहीं देखी। उन्होंने कहा कि यहां के विरष्ठ नागरिक नौजवानों से भी अधिक सिक्रयता से काम कर रहे हैं और इस संस्था के माध्यम से अंधेरे घरों में रोशनी पहुंचाने को काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने स्वैच्छिक कोष से चण्डीगढ सीनियर सिटीजन्स एसोसिएशन को पांच लाख रूपये की राशि प्रदान करने की भी घोषणा की।

इससे पहले राज्यपाल ने विभिन्न क्षेत्रों मेंें अच्छा काम करने वाले विरष्ठ नागरिकों को सम्मानित किया। इसके अलावा 85 साल से अधिक की आयु की मिहलाओं और 90 साल से अधिक आयु के पुरूषों को भी सम्मानित किया। उन्होंने चण्डीगढ सीनियर सिटीजन्स एसोसिएशन की वार्षिक स्मारिका और ब्रिगेडियर हरीश मल्होत्रा द्वारा लिखित पुस्तक 'बस यूंही' का विमोचन भी किया। समारोह को सम्बोधित करते हुए सांसद किरण खेर ने कहा कि चण्डीगढ शहर इसीलिए खूबसूरत है क्योंकि इसे ऐसे सेवाभाव वाले विरष्ठ नागरिकों ने बनाया है। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसे नागरिकों वाले नगर चण्डीगढ की बेटी कहलाने पर गर्व होता है।

समारोह के आरंभ में दहेज न लेने और न देने का संदेश देते हुए नाटक 'पख पया सोना' का मंचन किया गया।

चण्डीगढ सीनियर सिटीजन्स एसोसिएशन के चेयरमेन मेजर जनरल एम0एस0 कांडल ने राज्यपाल व अन्य अतिथियों का स्वागत किया। एसोसिएशन के अध्यक्ष आई0पी0 पुरी ने एसोसिएशन के कार्ययमों की जानकारी दी। उपाध्यक्ष एस0एस0 रंधावा ने सबका धन्यवाद किया।











And

Chandigarh, October 1. Haryana Governor Prof. Kaptan Singh Solanki released a book titled 'Emerging Contours of Excellence' edited by Prof. Jitendra Mohan, Professor emeritus of Psychology at Haryana Raj Bhavan today. The book is a collection of 21 papers of renowned academicians from all over the world.

